

प्रेषक,

सूर्य मोहन नौटियाल,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
खेल निदेशालय,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून : दिनांक 28 जून, 2019

विषय:- पं० नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान जनपद-पिथौरागढ़ स्थित मुनस्यारी के अवशेष निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु पूर्व में नामित कार्यदायी संस्था के स्थान पर नवीन कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में सम्यक् विचारोंपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पं० नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान जनपद-पिथौरागढ़ स्थित मुनस्यारी के अवशेष निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु पूर्व में नामित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, पिथौरागढ़ इकाई, गौरलचौड़, चम्पावत के स्थान पर उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम निर्माण इकाई, (खेल), देहरादून को नवीन कार्यदायी संस्था नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(सूर्य मोहन नौटियाल)  
अपर सचिव।

संख्या-190(A)/VI/2019-29(1)/2014-T.C-1<sup>ST</sup>, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा० खेल मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव, खेलकूद विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. अनु सचिव, वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
4. महाप्रबन्धक/इकाई प्रभारी, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, पिथौरागढ़ इकाई, गौरलचौड़, चम्पावत-262523
5. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम निर्माण इकाई (खेल), देहरादून।
6. एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(अतर सिंह)  
संयुक्त सचिव।